

**Office District Education Officer, East Champaran
(Bihar Education Project, East Champaran)**

1st Floor, Ambedkar Bhawan, Kachahari Chauk, Motihari

e-mail:- bepeastchamparan@gmail.com


Notice Inviting Quotations for supply of Printed Student Progress Card & Satat Mulyankan Panji for Half Yearly Evaluation 2025


Sealed quotations are invited from reputed/experienced firms/agencies for the Printing of Student Progress Card & Satat Mulyankan Panji Half Yearly Evaluation as per following specifications:-

S.	Item	specifications
1	Printing of Student Progress Card	• 220 GSM Mat art bord paper • A 4 Size Single page with Both side single colour Printing • Bundling of 500-500 Student Progress Card
2	Printing of Satat Mulyankan Panji	• 80 GSM Lazer paper • A 3 Size (28cm X 40 cm) Both side text Printing in single colour • Cover page 250 GSM with perfect binding. • Bundling of 50-50 Mulyankan Panji.

Detailed separate bid documents for the the above packages may be obtained from the office of BIHAR EDUCATION PROJECT, EAST CHAMPARAN on any working day upto 21 day from the day of publication of Advertisement. The bid documents may also be downloaded from our web-site www.bepeastchamparan.org & [https://eastchamparan.nic.in](http://eastchamparan.nic.in)

Bid documents sealed in separate covers and marked as "Part-I Technical Proposal" and "Part-II Finacial Proposal" must be send through registered post, on or before 21 day from the day of publication of Advertisement till 3:30 PM. All sealed quotations received before stipulated time will be opened in the office after 23 day from the day of publication of Advertisement . The bidders or their representatives who choose to be present.


District Programme officer (EE&SSA)
East Champaran


District Education officer
East Champaran

12/9/25

12/9/25

कार्यालय:- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।

(समग्र शिक्षा अभियान)

निविदा प्रपत्र

जिला के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालयों के कक्षा I से VIII में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन कराया जा रहा है। इस हेतु सभी विद्यालयों (वर्ग 1 से 8) के लिए सतत् मूल्यांकन पंजी तथा वर्ग I से VIII के सभी छात्र-छात्राओं के लिए प्रगति पत्रक के मुद्रण की आवश्यकता है।

निविदादाता के द्वारा जिला मुख्यालय में आपूर्ति के लिए निविदा में दर अंकित किया जाएगा तथा चयनित निविदादाता को कार्यदेश में अंकित विवरण के अनुसार जिला मुख्यालय अवस्थित कार्यालय अथवा स्थान पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

अतएव, मुद्रण हेतु निबंधित, योग्य एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ मुद्रकों से विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिनों तक की अवधि में अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निर्धारित प्रपत्र में सभी वांछित प्रमाण-पत्रों अथवा अभिलेखों के साथ पैकेजवार अलग-अलग सीलबंद लिफाफे (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में) में मात्र निबंधित डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। तकनीकी/वित्तीय निविदा जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा खोलने हेतु तिथि एवं समय अलग से दी जायेगी।

पैकेज : 1 प्रगति पत्रक की विशिष्टियाँ :-

क.	साइज	A/4 Size 220 GSM Single Page with both Side Single Colour Printing
ख.	संख्या	लगभग 755629 छात्र-छात्राओं के लिए
ग.	पृष्ठों की संख्या	A/4 साइज 02 पेज
घ.	पैकेटिंग	500-500 प्रगति पत्रक का बंडल बनाया जाएगा। बंडल इस तरह तैयार किया जाएगा जिससे कि बंडल के अंदर प्रगति पत्रक ढुलाई के क्रम में नष्ट न हो।

पैकेज : 2 मूल्यांकन पंजी की विशिष्टियाँ :-

2 (क) सतत् मूल्यांकन पंजी (प्रा० विद्यालय के लिए- 25 शीट)		
1.	कागज का साइज	80 GSM Laser Paper A/3 Size. 28 cm X 40 cm. Single Colour text Printing on both side, cover 250 GSM with perfect binding.
2.	संख्या	1700 विद्यालय के लिए
3.	शीट की संख्या	25 शीट (Including Cover Page)
4.	पैकेटिंग	50-50 पंजी का बंडल बनाया जाएगा तथा बंडल के ऊपर सतत् मूल्यांकन पंजी बोल्ड अक्षरों में मुद्रित रहेगा। बंडल इस तरह तैयार किया जाएगा जिससे कि बंडल के अंदर का सतत् मूल्यांकन पंजी ढुलाई के क्रम में नष्ट न हो।
2 (ख) सतत् मूल्यांकन पंजी (मध्य विद्यालय के लिए- 50 शीट)		
1.	कागज का साइज	80 GSM Laser Paper A/3 Size. 28 cm X 40 cm. Single Colour text Printing on both side, cover 250 GSM with perfect binding.

12

8

3

12

2.	संख्या	1400 मध्य विद्यालय के लिए
3.	शीट की संख्या	50 शीट (Including Cover Page)
4.	पैकेटिंग	50-50 पंजी का बंडल बनाया जाएगा तथा बंडल के ऊपर सतत मूल्यांकन पंजी बोल्ड अक्षरों में मुद्रित रहेगा। बंडल इस तरह तैयार किया जाएगा जिससे कि बंडल के अंदर का सतत मूल्यांकन पंजी ढुलाई के क्रम में नष्ट न हो।

निविदादाता के लिए शर्त एवं उपबंध :-

1. निविदादाता का मुद्रण एवं बाईंडिंग से संबंधित रंगीन शीट ऑफसेट मशीन (पैकेज एक के लिए), वेब ऑफसेट मशीन (पैकेज दो के लिए) एवं अन्य मशीनें, प्री-प्रेस सिस्टम, प्लेट मशीन के साथ साथ अन्य सभी आवश्यक मशीनें, प्री-प्रेस सिस्टम एवं बाईंडिंग सिस्टम से सुसज्जित इकाई बिहार में कार्यरत होना चाहिए।
2. निविदादाता को मुद्रण एवं बाईंडिंग से संबंधित कार्य का कम से कम पिछले तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
3. निविदादाता का प्रेस बिहार राज्य के GST/वणिज्य कर विभाग से मुद्रक के रूप में निबंधित होना चाहिए।
4. निविदादाता का पिछले किन्ही तीन वित्तीय वर्षों यथा - 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम रुपये तीस लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।
5. निविदा के साथ 30000.00 (तीस हजार) रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में देना होगा। ड्राफ्ट BEP GOB East Champaran के नाम से होना चाहिए, जो मोतिहारी में भुगतये हो।
6. निविदादाता का प्रेस किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो एवं किसी भी तरह का केस-मुकदमा में लिप्त/लंबित न हो।
7. निविदा द्विलिफाफा प्रणाली के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय निविदा के रूप में अलग-अलग लिफाफे में उसके ऊपर तकनीकी/वित्तीय अंकित कर देना होगा।

तकनीकी निविदा

निविदादाता के द्वारा सभी पैकेजों के लिए मात्र एक तकनीकी निविदा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचनाओं के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न करके निर्धारित तिथि तक समर्पित करना आवश्यक होगा :-

- (क) पिछले किन्ही तीन वित्तीय वर्षों यथा - 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का अंकेक्षित बैलेंस सीट, जिससे वार्षिक टर्न ओवर परिलक्षित हो, की प्रति।
- (ख) पिछले किन्ही तीन वित्तीय वर्षों यथा - 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का ऑडिट रिपोर्ट की प्रति।

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

- (ग) पिछले किन्ही तीन वित्तीय वर्षों यथा - 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का आयकर रिटर्न की प्रति।
- (घ) राज्य के GST/वाणिज्य कर विभाग से मुद्रक के रूप में निबंधित होने का प्रमाण। पैन/टैन/ GST संबंधित प्रमाण। वर्ष 2024-25 के अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च) का GSTR-1 प्रमाण पत्र की प्रति।
- (ङ.) कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र।
- (च) निविदादाता के पास रंगीन शीट ऑफसेट मशीन (पैकेज एक के लिए), वेब ऑफसेट मशीन (पैकेज दो एवं तीन के लिए) एवं अन्य मशीनें, प्री-प्रेस सिस्टम, प्लेट मशीन एवं बाईडिंग की सभी सुविधाएँ उपलब्ध होने का प्रमाण पत्र।
- (छ) निविदादाता का बिहार में इकाई कार्यरत होने (Total Staff Strength) का प्रमाण पत्र।
- (ज) अग्रधन के रूप में 30000.00 (तीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट।
- (झ) निविदादाता का प्रेस किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो एवं किसी भी तरह का केस-मुकदमा में लिप्त/लंबित न होने संबंधित नोटराईज्ड एफिडेविट शपथ पत्र।
- (ञ) प्रगति पत्रक एवं सतत् मूल्यांकन पंजी के निर्माण एवं पैकेटिंग/बंडलिंग में प्रयुक्त कागज/सामग्री का नमूना, साईज, GSM एवं पेपर मिल का नाम आदि स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए संलग्न होना चाहिए।
- (ट) प्रयुक्त किए जाने वाले कागज का नमूना का किसी राष्ट्रीयकृत टेस्ट प्रयोगशाला से जारी किया जाँच रिपोर्ट की प्रति।
- (ठ) पिछले तीन वर्षों में समरूप कार्य से संबंधित एकल क्रय आदेश की प्रति जो कम से कम रु. 10 लाख का हो।
- (ड) निविदादाताओं के द्वारा सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित करके जमा किये जाएंगे।

वित्तीय निविदा

- (क) निविदादाता के द्वारा सभी पैकेजों के लिए अलग-अलग वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक समर्पित करना आवश्यक होगा।
- (ख) वित्तीय निविदा के लिफाफा के उपर पैकेज संख्या एवं सामग्री का विवरण स्पष्ट अंकित होना चाहिए।
- (ग) वित्तीय निविदा में सभी कर एवं जिला कार्यालय तक परिवहन खर्च सहित प्रति इकाई का दर अंकित होना चाहिए। जिसमें मूल दर एवं जी०एस०टी० का अलग-अलग उल्लेख हो।
- (घ) तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
- (ङ.) वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम दर वाले निविदादाता/ निविदादाताओं को कार्य आवंटित किया जाएगा।

RV 2 3

अन्य शर्त/उपबंध

1. तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए कागजातों/प्रमाणों की भौतिक/स्थल सत्यापन करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी चम्पारण स्वतंत्र होगा।
2. अंतिम रूप से चयनित फर्म/एजेन्सी को क्रय आदेश की प्रति बिहार शिक्षा परियोजना पूर्वी चम्पारण के कार्यालय से प्राप्त कर निदेशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा।
3. मुद्रण/निर्माण से संबंधित सभी सामग्री एवं कार्य की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर से करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि अथवा अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
4. उपर्युक्त सभी शर्तों एवं उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। किसी एक भी शर्त/उपबंध को किसी समय पूरा नहीं करने की स्थिति में दिए गए कार्यदेश/निविदा को रद्द करते हुए निविदादाता के अग्रघन की राशि एवं बैंक गारंटी को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए परिषद् स्वतंत्र होगा।
5. निविदादाता को कार्य आवंटन के सात दिनों के अंदर कार्यदेश की कुल राशि के 5 प्रतिशत राशि का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना पूर्वी चम्पारण के नाम से निर्गत एवं 12 माह के लिए वैध बैंक गारंटी को परफोरमैंस सिक्यूरिटी के रूप में जमा करके परिषद् के साथ अनुबंध करना आवश्यक होगा। विलम्ब की स्थिति में कार्यदेश स्वतः रद्द माना जाएगा।
6. निविदादाता के द्वारा क्रय आदेश के आलोक में सभी जिला मुख्यालय अवस्थित कार्यालय को निर्धारित तिथि तक सभी सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्ण रूप से आपूर्ति के पश्चात् सामग्री प्राप्ति का सत्यापन कराकर विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।
7. मुद्रित प्रतियाँ/सामग्री निर्धारित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने/मुद्रण में त्रुटि/अस्पष्टता रहने, मजबूत बाईंडिंग नहीं होने, मुद्रित सामग्री ससमय आपूर्ति नहीं करने/निविदा शर्तों से विचलन आदि की स्थिति में भुगतये राशि से यथोचित राशि अथवा न्यूनतम 05 प्रतिशत तक की राशि की कटौती एवं निविदादाता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए बिहार शिक्षा परियोजना पूर्वी चम्पारण स्वतंत्र होगा।
8. सभी अथवा किसी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी अथवा पृच्छा के लिए निविदा प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को अपराह्न 03:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे के बीच बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के जिला मुख्यालय अवस्थित कार्यालय अम्बेदकर भवन, कचहरी चौक मोतिहारी में इच्छुक एवं योग्य निविदादाता संपर्क कर सकते हैं।
10. भविष्य में चयनित निविदादाता एवं परिषद् के जिला कार्यालय के बीच भुगतान/अन्य मामलों से संबंधित विवाद होने की स्थिति में विवादों के निपटारा हेतु राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के समक्ष निविदादाता द्वारा अनुरोध किया जा सकता है।

15/9/25
12/8/25
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
पूर्वी चम्पारण।

15/9/25
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण।

BIHAR EDUCATION PROJECT EAST CHAMPARAN1st Floor, Ambedkar Bhawan, Kachahari Chauk, Motiharie-mail:- bepeastchamparan@gmail.com**Format for Technical Bid**

SL.NO	PARTICULARS	RESPONSE OF BIDDER	REFER PAGE NO ----- TO -----
1	Name of the Firm & Owner (With Tel./Mob. No.		
2	Office Address with Tel./Fax/Mob. Nos		
3	Press Address with Tel./Fax/Mob. Nos		
4	Contact Person(s) Name, Address with Tel./Fax/Mob. Nos		
5	Annual Turnover (Please attached Proof)	2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25	
6	Annual Auditted Report (Please attached Proof)	2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25	
7	Annual ITR Report (Please attached Proof)	2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25	
8	FY 2024-25 GSTR -1 (4th Quarter) (Please attached Proof)		
9	Work Experience (in years) (Please attached Proof)		
10	PAN/TAN No./Service Tax No/VAT/GST No. (Please attached Proof)		
11	Make/Model of Printing and other machines available		
12	Total Staff strength of Bidder		
13	Details of Earnest Money Deposit	DD No. Date	
14	Affadavit regarding not involved in any case or blacklisted		
15	Paper Sample with Test report		

Date:

Signature of Bidder




BIHAR EDUCATION PROJECT, EAST CHAMPARAN1st Floor, Ambedkar Bhawan, Kachahari Chauk, Motiharie-mail:- bepeastchamparan@gmail.com**Format for Financial Bid****Printing and Supply of Progress Card & Satat Mulyankan Panji .**

Package No.	Particulars	Basic rate Per Pc (Rs.)	GST (Rs.)	Total Rate per (Rs.)	REMARKS
1	Progress Card				
2 (a)	Satat Mulyankan Panji 25 Sheet				
2 (b)	Satat Mulyankan Panji 50 Sheet				

1. We agree to supply the above mentioned items
for package 1 @ Rs. ----- (in words Rs.-----
-----);
for package 2 (a); @ Rs. ----- (in words Rs.-----
-----);
for package 2 (b) @ Rs. ----- (in words Rs.-----
-----);
including all Taxes, Transportation etc. in accordance with the technical specification within
..... days of the issue of work order.
2. We also confirm that the normal commercial warrantee/guarantee of 3 days shall apply to the offered goods and services.
3. We also agree and abide with the terms and conditions stipulated in the bid document.

Date:

Signature of Bidder